

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2018/ वैशाख 4, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 503
No. 91]	DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2018/VAISAKHA 4, 1940	[N.C.T.D. No. 503

भाग—IV
PART—IV

गृह (सामान्य) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सं.फा. 18/73/2015/गृह पुलिस (सा10)/2624-33.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं0 यू0 11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अधिकारियों को, उस समय तक जब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, दिल्ली के महानगर क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. सुश्री पन्ना दत्ता
2. श्री देवेन्द्र सिंह
3. श्री मनीश अग्रवाल
4. सुश्री प्रतिमा रानी गुप्ता
5. श्री रविन्द्र दत्त भार्मा
6. श्री अरुण कुमार-1

संयुक्त पंजीयक
संयुक्त पंजीयक
संयुक्त पंजीयक
संयुक्त पंजीयक
संयुक्त पंजीयक
संयुक्त पंजीयक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. के. पुरी, उप सचिव (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th April, 2018

No.F.18/73/2015/Home (G)/2624-33.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification

No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Officers of the High Court of Delhi to be the Executive Magistrates in Metropolitan Area of Delhi, till they hold the present post or till further orders, whichever is earlier.

1. Ms. Panna Dutta	Joint Registrar
2. Mr. Devendra Singh	Joint Registrar
3. Mr. Manish Aggarwal	Joint Registrar
4. Ms. Pratima Rani Gupta	Joint Registrar
5. Mr. Ravinder Dutt Sharma	Joint Registrar
6. Mr. Arun Kumar-I	Joint Registrar

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
B.K. PURI, Dy. Secy. (Home)

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.04.28 16:09:28
+05'30'